



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2001/अग्रहायण 23, 1923

No. 905]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2001/AGRAHAYANA 23, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1223(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल-सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए शुल्क) नियमावली, 1997 के नियम 3 और 5 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 19 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 687 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड पर 0/0 से 27/8 कि.मी. के बीच के खंड के उपयोग के लिए निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर यंत्रीकृत वाहनों से शुल्क लिया जाएगा और भुगतान किया जाएगा तथा एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगले आदेशों तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क वसूल करने और रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करती है ।

**अनुसूची**

(उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ५ के भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड पर ०/० से २७/८ कि.मी. के बीच खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दर)

क्रम सं०	वाहन का विवरण	प्रति वाहन प्रति ट्रिप के लिए वसूल की जाने वाली शुल्क दर (रुपए)
----------	---------------	---

1.	मोटर साइकिल, स्कूटर अथवा यंत्रचालित कोई अन्य दुपहिया वाहन	कुछ नहीं
2.	ट्रेलर सहित अथवा रहित तिपहिया वाहन	५/- रु.
3.	कार अथवा जीप अथवा वैन	१०/- रु.
4.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	१५/- रु.
5.	बसें	२०/- रु.
6.	ट्रक	२५/- रु.
7.	भारी निर्माण वाहन/मशीनरी और अर्थ मूविंग उपस्कर	८०/- रु.

**नोट**

1. यदि किसी वाहन को एक दिन में एक बार से अधिक पुल पार करना है तो प्रयोक्ता को पहली ट्रिप में खंड पार करते समय उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों के डेढ़ गुणे का भुगतान करने का विकल्प होगा अथवा यदि वाहन को लगातार और पूरे माह अथवा उससे आगे और लंबी अवधि के लिए बार-बार खंड का उपयोग करना है तो वाहन मालिक तीस इकहरी दरों के बराबर प्रभारों का भुगतान करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित किस्म के वाहनों को शुल्क से छूट दी जाती है अर्थात् :-

- (i) रक्षा वाहन,
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले वाहन
- (iii) पुलिस वाहन
- (iv) अग्नि शमन वाहन
- (v) एम्बुलेंस
- (vi) शव वाहन

- (vii) डाक और तार विभाग के वाहन, और
- (viii) केन्द्र और राज्य सरकार के वाहन

3. निम्नलिखित से संबंधित सरकारी वाहनों को वी आई पी प्रतीक वाले वाहन समझा जाएगा अर्थात् :-

- (i) भारत के राष्ट्रपति
- (ii) भारत के उप राष्ट्रपति
- (iii) केन्द्रीय और राज्य मंत्री
- (iv) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं में कैबिनेट मंत्री के स्तर के प्रतिपक्ष के नेता
- (v) राज्यों के राज्यपाल
- (vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल
- (vii) केन्द्रीय और राज्य विधान सभाओं के स्पीकर अथवा अध्यक्ष
- (viii) निर्वाचित स्थानीय निकायों के कार्यकारी पार्षद
- (ix) भारत के सरकारी दौरे पर विदेशी उच्चाधिकारी
- (x) सी डी प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में स्थित विदेशी राजनयिक
- (xi) संसद सदस्य, और
- (xii) उड़ीसा राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्य

4. उपयुक्त दरें पथकर चौकी और पथकर चौकी से 200 मी० आगे बोर्डों पर हिन्दी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा में स्पष्ट रूप से लिखित अथवा मुद्रित पथकर चौकी के पास स्पष्ट स्थान पर एक बोर्ड लगाकर स्पष्टतः प्रदर्शित की जाएंगी जिसे चालक की सीट से पढ़ा जा सके । प्रत्येक यंत्रिकृत वाहन का चालक, मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति खंड पार करने से पहले अथवा पार करने के पश्चात् क्रास बार पर अपना वाहन रोकेगा और शुल्क वसूली बूथ पर वाहन के संबंध में देय शुल्क का भुगतान करेगा । बदले में खंड से गुजरने वाले किसी यंत्रिकृत वाहन के संबंध में शुल्क वसूल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति फार्म 'क' में दो प्रतियों में एक रसीद तैयार करेगा और रसीद की एक प्रति यंत्रिकृत वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को देगा ।

फार्म 'क'

आर सं०

शुल्क भुगतान के लिए रसीद

खंड/स्थायी पुल का नाम

1. पंजीकरण संख्या के साथ यंत्रिकृत वाहन का विवरण
2. लदा हुआ अथवा बिना लदा अथवा यात्री सहित अथवा यात्री रहित
3. बहिर यात्रा का समय और तारीख
4. चालक और/अथवा मालिक का नाम
5. अदा की गई शुल्क राशि

[ सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/875/99-ओआरएस-एन-एच-9 ]

अशोक जोशी, सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना 19 जुलाई, 2001 को का.आ. सं.687 (अ) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2001

S.O. 1223(E).— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 5 of the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge – Public Funded Projects) Rules, 1997, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, vide No. 687 (E) dated, the 19<sup>th</sup> July, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fee on mechanical vehicles for the use of stretch between km. 0/0 to km. 27/8 on Bhubaneswar-Cuttack-Jagatpur section of National Highway No. 5 at the rates specified in the Schedule given below, and hereby authorizes the National Highways Authority of India or its authorized representative to collect and retain fee at the rates specified in the said Schedule from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, till further orders.

## SCHEDULE

(Rate of fee to be recovered from the users of stretch between km. 0/0 to km. 27/8 on Bhubaneswar-Cuttack-Jagatpur Section of National Highway No. 5 in the State of Orissa)

S.No.	Particulars of vehicles	Rates of fee to be charged per vehicle per trip (in.Rs)
1.	2.	3.
1.	Motor Cycle, Scooter or any other two wheeled mechanically propelled vehicles	NIL
2.	Three wheelers with or without trailers	Rs. 5/-
3.	Car or Jeep or Van	Rs.10/-
4.	Light Commercial Vehicle	Rs.15/-
5.	Buses	Rs. 20/-
6.	Trucks	Rs.25/-
7.	Heavy construction vehicles/machinery and earth moving equipment	Rs.80/-

## NOTE:

1. When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the rates specified above while crossing the section in the first trip itself, or if the vehicle has to cross the section continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that, for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty single rates.

2. The following types of vehicles are exempted from the fee, namely :-

- (i) Defence vehicles;
- (ii) Vehicles with VIP symbols;
- (iii) Police vehicles;
- (iv) Fire fighting vehicles;
- (v) Ambulances;
- (vi) Funeral vans;
- (vii) Post and Telegraph Department vehicles; and
- (viii) Central and State Government vehicles.

38 47 11/21-5/- 2

3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely :-

- (i) President of India;
- (ii) Vice president of India;
- (iii) Central and State Ministers;
- (iv) Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and State legislatures having the status of a Cabinet Minister;
- (v) Governors of States;
- (vi) Lieutenant Governors of Union territories;
- (vii) Speakers or Chairman of the Central and State Legislatures;
- (viii) Executive Councilors of Local Elected Bodies;
- (ix) Foreign dignitaries on State visit to India;
- (x) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD (Car Diplomatic) symbols;
- (xi) Members of Parliament; and
- (xii) Members of State Assembly/ Legislative Councils of Orissa

4. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed on a Board erected at conspicuous places in the vicinity of the Toll plaza, both legibly written or printed in Hindi, English and Oriya languages on Boards, at the Toll Plazas and 200 metres ahead of Toll Plazas, which should be readable from driver's seat. Every driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle shall, before crossing the section or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicle at the fee collection booth. The person authorized by the National Highways Authority of India to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the section shall in return, prepare a receipt in duplicate in Form 'A' and hand over one copy of the receipt to the driver or owner or person in-charge of the mechanical vehicle.

R.No.

**FORM 'A'**

Receipt for payment of fee.

Name of Section/Permanent Bridge.

1. Description of mechanical vehicle with Registration number
2. Whether laden or unladen or with or without passengers.
3. Time and date of outward journey.
4. Name of driver and/or owner.
5. Amount of fee paid.

[No. RW/NH-12037/875/99-ORS-NH-9]

ASHOKE JOSHI, Secy.

Note : The Principal notification was published in the Official Gazette vide No. S.O. 687(E), dated the 19th July, 2001.